

LESSON  
1

# はるさんハウスはどこですか

Haru-san-Hausu wa doko desu ka

हारु-सान हाउस कहाँ है?



## नाटिका

タム : すみません。

माफ़ कीजिए।

ताम

Sumimase<sup>1</sup>n.

はるさんハウスはどこですか。

हारु-सान हाउस कहाँ है?

Haru-san-Ha<sup>1</sup>usu wa do<sup>1</sup>ko de<sup>1</sup>su ka.

かいと

海斗 : はるさんハウス?

हारु-सान हाउस?

काइतो

Haru-san-Ha<sup>1</sup>usu?

あれ? ぼくたちのうちだよ。

अरे, हमारे घर की बात कर रही हैं।

Are? Bo<sup>1</sup>kutachi no uchi<sup>1</sup> da yo ne.

ミーヤー : すぐ<sup>ちか</sup>近くです。

बहुत पास है।

मी या

Su<sup>1</sup>gu chi<sup>1</sup>kaku de<sup>1</sup>su.

いっしょ<sup>い</sup>に行きましょう。

साथ चलते हैं।

Issho ni ikimasho<sup>1</sup>o.

かいと

海斗 : こっちだよ。

इस तरफ़।

काइतो

Kocchi<sup>1</sup> da yo.

タム : はい。ありがとうございます。

जी।

ताम

Ha<sup>1</sup>i. Ari<sup>1</sup>gatoo gozaima<sup>1</sup>su.

बहुत-बहुत धन्यवाद।

### शब्दावली

すみません माफ़ कीजिए

sumimase<sup>1</sup>n

どこ कहाँ

do<sup>1</sup>ko

ぼくたち हम

bo<sup>1</sup>kutachi

うち घर

uchi

すぐ<sup>ちか</sup>近く बहुत पास

su<sup>1</sup>gu chi<sup>1</sup>kaku

いっしょ<sup>い</sup>に साथ/एक साथ

issho ni

行く<sup>い</sup> जाना (चलना)

iku

こっち इस तरफ़

kocchi<sup>1</sup>

はい जी/हाँ

ha<sup>1</sup>i

## मुख्य वाक्यांश

## はるさんハウスはどこですか。

Haru-san-Ha<sup>1</sup>usu wa do<sup>1</sup>ko de<sup>1</sup>su ka.

हारु-सान हाउस कहाँ है?

रास्ता पूछने के लिए कहें “[जगह] wa doko desu ka”। “wa” विषय-सूचक कारक है। यह संज्ञा के बाद लगता है। हिरागाना में इसे “ha” लिखते हैं, लेकिन इसका उच्चारण “wa” है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए प्रश्नवाचक शब्द “doko” यानी “कहाँ” के बाद “desu ka” लगाएँ और अन्तिम शब्द ऊँचे स्वर में बोलें।

## अभ्यास करें!

すみません。トイレはどこですか。

Sumimase<sup>1</sup>n. To<sup>1</sup>ire wa do<sup>1</sup>ko de<sup>1</sup>su ka.

माफ़ कीजिए। शौचालय कहाँ है?

あそこです。

Asoko de<sup>1</sup>su.

वहाँ है।



## कोशिश करें!

すみません。～はどこですか。

Sumimase<sup>1</sup>n. ~wa do<sup>1</sup>ko de<sup>1</sup>su ka.

माफ़ कीजिए। XXX कहाँ है?

① 駅

e<sup>1</sup>ki

स्टेशन



② コンビニ

konbini

कन्वीनियंस स्टोर



सहज वाक्य

ありがとうございます。


Ari<sup>1</sup>gatoo gozaima<sup>1</sup>su.

बहुत-बहुत धन्यवाद

यह आभार प्रकट करने का तरीका है। दोस्त, परिजन या किसी करीबी व्यक्ति का आभार व्यक्त करते समय आप केवल “arigatoo” भी बोल सकते हैं।

# जापानी भाषा की ध्वनियाँ

जापानी भाषा के अक्षरों में व्यंजन और स्वर जुड़े रहते हैं।



जापानी भाषा में शब्दों का उच्चारण जोर पर नहीं बल्कि सुर के उतार-चढ़ाव पर आधारित है। हर शब्द का निर्धारित सुर होता है। कुछ शब्दों में सारी ध्वनियाँ एक ही सुर में बोली जाती हैं तो कुछ में एक निर्धारित स्थान पर सुर नीचे करना होता है। उस स्थान को हमने “ ˊ ” से दिखाया है।

aˊme

बारिश



aˊme

मीठी गोली



Aˊme ga furimaˊshita

बारिश हुई।

Aˊme ga furimaˊshita

मीठी गोलियाँ बरसीं।

उत्तर

① すみません。駅はどこですか。

Sumimaseˊn. Eˊki wa doˊko deˊsu ka.

② すみません。コンビニはどこですか。

Sumimaseˊn. Konbini wa doˊko deˊsu ka.